



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1935 (श0)  
(सं0 पटना 41) पटना, सोमवार, 6 जनवरी 2014

#### बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना  
23 सितम्बर 2013

सं0 1181—पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी श्री विष्णु-सूर्य मंदिर, मनीचक पर्षद में निबंधित न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-3428 है। पूर्व में पर्षदीय पत्रांक-6740, दिनांक 18-02-2002 द्वारा अगले आदेश तक के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया। उनमें से कुछ सदस्यों का निधन हो चुका था तथा न्यास समिति के शेष सदस्य निष्क्रिय थे। पर्षदीय पत्रांक- 717, दिनांक 17-07-13 द्वारा अंचल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना से न्यास समिति के गठन हेतु स्थानीय 11 प्रतिष्ठित सज्जनों का नाम जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा जो न्यास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित न हों, के नाम की मांग की गयी। इसके अनुपालन में अंचल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना ने अपने पत्रांक-19-2546, दिनांक 20-08-13 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु स्थानीय 11 प्रतिष्ठित सज्जनों के नाम की सूची भेजी है।

इस प्रकार इस न्यास के सुचारु प्रबंधन, सुव्यवस्था एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री विष्णु-सूर्य मंदिर, मनीचक, मसौढ़ी, पटना के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री विष्णु-सूर्य मंदिर, मनीचक, मसौढ़ी, पटना" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री विष्णु-सूर्य मंदिर न्यास समिति, मनीचक, मसौढ़ी, पटना" होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य यदि किसी आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे या उनकी कोई आपराधिक संलिप्तता भी होगी, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया जाता है:-

(1) श्री शशि भूषण कुमार	—	अध्यक्ष
(2) श्री अनिल कुमार	—	सचिव
(3) श्री संजीव कुमार उर्फ मंटु	—	कोषाध्यक्ष
(4) श्री धर्मवीर प्रसाद	—	सदस्य
(5) श्री संतोष कुमार	—	"
(6) श्री रामदेव चौधरी	—	"
(7) श्री जितेन्द्र कुमार	—	"
(8) श्री सुनील कुमार	—	"
(9) श्री मनोज कुमार दीपक	—	"
(10) श्री अजय कुमार	—	"
(11) श्री दिलीप कुमार	—	"

सभी का पता—श्री विष्णु-सूर्य मंदिर, मनीचक, मसौढ़ी, पटना।

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 01/10/2013 से 05 वर्ष का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>